



श्रीं रत्नप्रभसुरीश्वर सदगुरुभ्यो नम

श्री

शीघ्रबोध

अथवा

थोकडा प्रबन्ध

सप्त भागः

श्रीं <sup>सम्राट् क-</sup> एतत्प्रबन्धो नाम कश्चि पद्यम्

श्रीं महोपदेश गच्छीय मुनिश्रीं  
ज्ञानसुन्दरजी ( गयवरचदजी )

पञ्चाङ्क—

शाह भीवराजजी हजारीमलजी मारवाडी।  
मुा गोलपाड (मारवाड)

मुद्द-इश्वरदास विमनरास कापडिया 'जेन पित्तप'  
प्रेम सगाडिया चहगा, ल-मीनारायणी वाडी-भृङ्गन ।

प्रथमावृत्ति १००० वीर सवन् २४४५

मू य सदुपयाग



## प्रस्तावना ।

विदित ही है कि आनकाल लोक प्रायः कथारसिक होनेसे नोबेलो व उपन्यास विगोरे शृंगार रसादि कि रास चोपाइयोंको ही आत्मिकज्ञान मान बैठे है और विशेष पठन पाठन भी उन्हीका ही करते हैं इसीसे आत्मिक व आत्मिकज्ञानकी किानी खूबना हुई है वह विचारणीय है ।

स्वाम लक्षमें रखना चाहिये कि जब तक आत्मिकज्ञान नहीं है तब तक विषय कथायसे निवृत्ति होना असम्भव है और जब तक विषय कथायसे निवृत्ति नहीं है तब तक मोक्षमार्ग दूर ही समझना चाहिये ।

पूर्व महाऋषियोंन शास्त्र रूपी समुद्रको मथन कर मध्य जीवोंक कल्याणक दिये चिंतामणि रत्न एकत्र कर यह प्रकरण बनाया है सो प्रकरण इस वक्त आरके कारुण्यमें मौजूद है मनो एक चञ्चल चित्तको बश करनके लिये एक आद्वितीय अक्षुभ है और कर्मरूपी महादनको प्रज्वालनेके लिये दावानल है ।

बढासे बढा तप वह ही है योगधित्तनिग्रह अर्थात् मनको विषय कथायसे रोकना सो इम प्रकरण द्वारा हो सके हैं ।

अधिकसे अधिक निजरा (कर्मोंका क्षय) वह ही है कि भ्रमना सदुपयोगकी लीनताका ज्ञानमें लगा देना सो इम प्रकरण द्वारा प्राप्त हो सक्ति है ।

दर्शन और चारित्रका आत्म्यन मृत एक ज्ञान ही है देखिये पूर्व महाऋषियों देशोना ब्रौड पूर्व चारित्रमें स्थित रहने थे उन्ही

कों मात्र ज्ञान हीका आधार था, प्रियाधुना स्वल्प समयका चारित्र्यमें भी अनेक विकल्प पैदा होता है इसका कारण प्रायः ज्ञानकी न्यूनता ही पाई जाती है वास्ते वनपड़े वहां तक आति मक्ज्ञानका विशेष प्रयत्न करना चाहिये ।


यह थोकड़े द्रव्यानुयोगका तो एक अपूर्व नमूना ही है और प्रश्नोंका तो मानोके एक बड़ा भारी कोष है ऐसे प्रश्नोंकी क्रीतने ही स्थान पर अति जरूरत पड़ती है वास्ते इस त्रुटीको पूर्ण करनेको इस थोकड़ेको कण्ठस्थ कर एक एक प्रश्नार अच्छी तरह मनन करना चाहिये । इस थोकड़े द्वारे कितना सिद्धन्ता कि रहस्यों व सदुपयोगकी तीव्रता प्राप्ति होगा वह इस लघु पुस्तकको आद्योपान्त पढ़नेसे पाठकों को स्वयं ज्ञात होगा ।

यद्यपि दीर्घकालके आत्मिक ज्ञानसे अपरिचित महाशयकों किसी स्थानपर कोई वार्ता समझमें नहीं भी आवे तो अनोत्साह होकर पुस्तक बंद कर रख देना नहीं चाहिये किंतु विचार करना चाहिये कि मेरी आत्मा अनन्त शक्तिमान है परन्तु अज्ञानके प्रबलपणासे वह शक्तिआं आच्छादित हो गई है इस समय यह पुस्तक शुभ निमित्त कारण मिला है इसे मुझे मेरी शक्तिओंको अवश्य प्रगट करना चाहिये ।

इसी माफिक प्रयत्न कर द्रव्यानुयोगमें रमणता करेंगे वह ही जीव भाव समकिन व मोक्षका अधिकारी बन सकेगा । इतिशम्

लेखक—

थोकड़े संग्रहकर्ता



# वन्दे वीरम्.

श्री रत्नप्रमसूरीश्रासद्गुह्यो नम

ल भगवान् वीरो, मगल गौतमप्रभुः

ल स्थूल भद्राद्या, जैन धर्मोऽस्तु मगलम्

## श्लोकत्रये नमस्कृतम् १

( जीवका भेद विचार )

जीव	स्यानका नाम	नारकी तीर्थच	मनुष्य	देशता	
	लोकके केवलीमें	०	०	१	०
	माएकावतारीमें	०	०	०	२
	रेशीएकेन्द्रीमें	०	३	०	०
	श्रीकी आगती नारकीमें	४	०	०	०
	दृष्टी तीर्थचमें	०	५	०	०
	श्लोककी देवीमें	०	०	०	६
	पयोगी नारकीमें	७	०	०	०
	स्योगपानेवालेमें	०	८	०	०
	ए लोकका नोगर्भज ते	०	३	०	६
	शीमें				
१	वन्त सम्यक्त्व दृष्टीमें	०	०	०	१०
१	शयोगी चक्षुद्रि तीर्थच	०	११	०	०
१	श्लोकका गर्भजमें	०	१०	२	०

जीवकेभेद स्थानका नाम	नारकी	तिर्यच	मनुष्य	देवता
१३ वचनयोगी तीर्थचंग	०	१३	०	०
१४ अधोलोक वचनयोगी ओदारिकशरीरमें	०	१३	१	०
१५ वैक्रिय शरीर मनुष्यमें	०	०	१५	०
१६ उर्द्धलोक पंचेन्द्री तेजोलेशीमें	०	१०	०	६
१७ घ्राणेन्द्रिय तिर्यच सम्यक्त्व	०	१७	०	०
१८ प्रत्येक शरीर एकेन्द्रीमें	०	१८	०	०
१९ उर्द्धलोकके तेजोलेशीमें	०	१३	०	६
२० गर्भज मिश्रदृष्टीमें	०	५	१५	०
२१ औदारिकसे वैक्रिय करनेवालोंमें	०	६	१५	०
२२ तिर्यचपर्याप्ता प्रत्येकशरीरमें	०	२२	०	०
२३ अधोलोकके मिश्र दृष्टिमें	७	५	१	१०
२४ घ्राणेन्द्री तिर्यचमें	०	२४	०	०
२५ नीचालोकके वचनयोगी देवमें	०	०	०	२६
२६ ऊंचा लोकके मिश्र दृष्टीमें	०	५	०	२१
२७ शुक्लेशी मिश्र दृष्टीमें	०	५	१५	७
२८ एक संहननवादादर तीर्थचमें	०	२८	०	०
२९ नीचालोकके त्रस औदारिकमें	०	२६	३	०
३० एकान्त भिष्यात्वी तीर्थचमें	०	३०	०	०
३१ नीचालोक पुरुषवेद अभाषकमें	०	५	१	२५
३२ पद्मलेशी मिश्र दृष्टिमें	०	५	१५	१२
३३ पद्मलेशी वचनयोगीमें	०	५	१५	१३

जीवनेभेद स्थानका नाम	नारकी	तिर्यच	मनुष्य	देवता
३४ उर्वरलोकके एकात मिथ्यात्वमें	०	२८	०	६
३५ औदारिक शरीर अवधि दर्शनमें	०	६	३०	०
३६ उर्वरलोकके एकात नपुंसक वर्द्धमें	०	३६	०	०
३७ नीचालोकके पंचेन्द्रिय नपुंसकमें	१४	२०	३	०
३८ नीचा लोकके मनयोगीमें	७	५	१	२६
३९ नीचा लोकके एकात अपनीमें	०	३८	१	०
४० औदारिक शरीर शुद्धेशी	०	१०	३०	०
४१ शुद्धेशी सम्यक्त्व दृष्टी अप्रापक	०	६	१२	१७
४२ शुद्धेशी बचनयोगीमें	०	५	१४	२२
४३ उर्वरलोकके मनयोगीमें	०	४	०	३८
४४ शुद्धेशी देवतामें	०	०	०	४४
४५ कर्मभूमि मनुष्यमें	०	०	४६	०
४६ नीचाउल्लेख बचनयोगीमें	७	१३	१	२६
४७ उर्वरलोकके शुद्धेशी अपनी ज्ञानीमें	०	६	०	४३
४८ नीचा लोकके अप्रापक प्रथममें	७	३३	३	२६
४९ उर्वरलोकके शुद्धेशी अपनी दर्शनमें	०	४	०	



जीवकेभेद स्थानका नाम	नारकी	तिर्यं	मनुष्य	देवता
५० -जोतिषीकी आगतमें	०	५	४५	०
५१ नीचा लोकके औदारिकमें	०	४८	३	०
५२ उर्ध्वलोकके शुक्ललेशी सम्यक्त्व दृष्टिमें	०	१०	०	४२
५३ नीचे लोकके नपुंसक वेदमें	१४	३८	१	०
५४ उर्ध्वलोकके शुक्ललेशीमें	०	१०	०	४४
५५ नीचेलोकके वादरनपुंसकमें	१४	३८	३	०
५६ तिरछा लोकके मिश्र दृष्टिमें	०	५	१५	३६
५७ नीचा लोकके पर्याप्तामें	७	२४	१	२५
५८ नीचा लोकके अपर्याप्तामें	७	२४	२	२५
५९ कृष्ण लेशी मिश्र दृष्टिमें	३	५	१५	३६
६० नीचा लोकका अभाषक तथा अकर्म भूमीके एकान्त सत्रीमें	७	२५	३	२५
६१ उर्ध्वलोकके अणहारीमें	०	२३	०	३८
६२ नीचेलोकके एकान्तमिथ्यात्वीमें	१	३०	१	३०
६३ भरत क्षेत्रमें	०	४८	१५	०
६४ पद्मलेशी सम्यक्त्व दृष्टिमें	०	१०	३०	२४
६५ नीचालोकके तेजो लेशीमें	०	१३	२	५०
६६ पद्म लेशीमें	०	१०	३०	२६
६७ मिश्रीदृष्टी देवतामें	०	०	०	६७
६८ तेजो लेशी मिश्रदृष्टीमें	०	५	१५	४८
६९ उर्ध्वलोक बादरसाध्वता	०	३१	०	३८

जीवकेभेद स्थानका नाम	नारकी	तिर्येच	मनुष्य	देवता
७० नीचा लोकके अमाषकमें	७	३५	३	२५
७१ नीचालोकके अवधीदर्शनमें	१४	५	२	५०
७२ तीरत्रालोकके देवतामें	०	०	०	७२
७३ नीचालोकके बादर मरणयामें	७	३८	३	२५
७४ मिश्रदृष्टीकेनो गर्भजमें	७	०	०	६७
७५ उर्ध्वलोकके अवधी ज्ञानीमें	०	५	०	७०
७६ उर्ध्वलोकके देवतामें	०	०	०	७६
७७ नीचेलोकका चतुर्द्विनीनो गर्भज	१४	१२	१	५०
७८ उर्ध्वलोककेनो गर्भज सम्य क्त्वदृष्टी	०	८	०	७०
७९ उर्ध्वलोकके साम्बता	०	४१	०	३८
८० घातकी खडका त्रसमें	०	२६	५४	०
८१ उर्ध्वलोकके एकान्त सती	०	५	०	७६
८२ शुक्ल लेशी सम्यक्त्वदृष्टीमें	०	१०	३०	४२
८३ नीचे लोक मरणयामें	७	४८	३	२५
८४ शुक्ललेशीमें	०	१०	३०	४४
८५ नीचा लोकके कृष्णलेशीत्रसमें	६	२६	३	५०
८६ उर्ध्वलोकके पुरुष वेदमें	०	१०	०	७६
८७ उर्ध्वलोकके घ्राणेन्द्री सम्यक्त्व दृष्टीमें	०	१७	०	७०
८८ उर्ध्वलोकके सम्यक्त्व दृष्टीमें	०	१८	०	७०
८९ नीचा लोकके चतुर्द्विमें	१४	२२	३	५०

जीवकेभेद	स्थानका नाम	नारकी	तिर्यक्	मनुष्य	देवता
९०	सम्यक्त्वदृष्टी मनुष्यमें	०	०	९०	०
९१	नीचा लोकके घ्राणेन्द्रीमें	१४	२४	३	५०
९२	उर्ध्वतस मिथ्यादृष्टीमें	०	२६	६६	६६
९३	नीचा लोकके त्रसमें	१४	२६	३	५०
९४	वचनयोगी मिथ्यादृष्टी देवतामें	०	०	०	९४
९५	नोगर्भज अपापक सम्क्त्वदृष्टीमें	६	८	०	८१
९६	उर्ध्वलोकके पंचेन्द्रीमें	०	२०	०	७६
९७	अधोलोकके कृष्णलेशीवादरमें	६	३८	३	५०
९८	घातकी खंडके प्रत्येक शरीर धारीमें	०	४४	५४	०
९९	वचनयोगी देवतामें	०	०	०	९९
१००	उर्ध्वलोकके प्रत्येक शरीरी मिथ्यात्वीवादरमें	०	३४	०	६६
१०१	वचनयोगी मनुष्यमें	०	०	१०१	०
१०२	उर्ध्वलोकके त्रसमें	०	२६	०	७६
१०३	अधोलोकके नोगर्भजमें	१४	३८	१	५०
१०४	एकान्त मिथ्यात्वी सास्वतामें	०	३०	५६	१८
१०५	अधोलोकके वादरमें	१४	३८	३	५०
१०६	मनयोगी गर्भजमें	०	५	१०१	०
१०७	अधोलोकके कृष्णलेशीमें	६	४८	३	५०
१०८	ओदारिक सम्यक्त्वदृष्टीमें	०	१८	९०	०
१०९	कृष्णलेशी वैक्रिय शरीर नोगर्भजमें	६	१	०	१०२

जीवकेभेद	स्थानका नाम	नारकी	तिर्यच	मनुष्य	देवता
११०	उर्ध्वलोकके बादर प्रत्येक शरीरमें०	३४	०	७६	
१११	अधोलोकके प्रत्येक शरीर धारीमें	१४	४४	३	९०
११२	उर्ध्वलोकके मि०यात्वीमें	०	४६	०	६६
११३	वचनयोगी घ्राणेन्द्रिय औदारिक शरीरमें	०	१२	१०१	०
११४	ओदारिक शरीर वचन योगीमें	०	१३	१०१	
११५	अधोलोकमें	१४	४८	३	९०
११६	मनुष्य अपर्याप्ता मरणपामें	०	०	११६	०
११७	क्रियावादी समोवसरण अमरमें	६	०	३०	८१
११८	उर्ध्वलोकके प्रत्येक शरीरमें	०	४२	०	७६
११९	घ्राणेन्द्री मिश्रयोगी सास्त्रनामें७	१२	१९	१९	८५
१२०	एकात असन्नी अपर्याप्तामें	०	१९	१०१	०
१२१	विभग ज्ञानी मरणपासे	७	९	१४	९४
१२२	कृष्णालेशी वैक्रिय शरीर स्त्रीमें	०	९	१५	१०२
१२३	तीनशरीर औदारिक सास्त्रतामें०	३७	८६	०	
१२४	लवणसमुद्रके घ्राणेन्द्री अभापकमें	०	१२	११२	०
१२५	तेजोलेशी लवणसमुद्रमें	०	१३	११२	०
१२६	गर्भन मरणपामें	०	१०	११६	०
१२७	वैक्रिय शरीर मरण पामें	७	६	१०	९९
१२८	देनीमें	०	०	०	१२८

जीवकेभेद	स्थानका नाम	नारकी	तिर्यत्र	मनुष्य	देवता
१२९	एकांयवादर असन्नीमें	०	२८	१०१	०
१३०	लवणसमुद्र त्रसमिश्र योगीमें	०	१८	११२	०
१३१	मनुष्य नपुंसक	०	०	१३१	०
१३२	सास्वत मिश्र योगीमें	७	२५	१५	८५
१३३	मनयोगी सम्यक्त्व दृष्टी अ- संख्यात भववालांमें	७	५	४५	७३
१३४	वादर औदारिक सास्वतामें	०	३३	१०१	०
१३५	प्रत्येक शरीरी एकांत असन्नीमें	०	३४	१०१	०
१३६	तीनलेशी औदारिकमें	०	३५	१०१	०
१३७	क्रियावादी असास्वातामें	६	५	४५	८१
१३८	मनयोगी सम्यक्त्वदृष्टीमें	७	५	४५	८१
१३९	औदारिक नोगर्भजमें	०	३८	१०१	०
१४०	कृष्णालेशी अमरमें	३	०	८६	५१
१४१	अवधी दर्शन मरण पामें	७	५	३०	९९
१४२	पंचेंद्रि सम्यक्त्वदृष्टी अपर्याप्तामें	१०	१०	४५	८१
१४३	एकांत नपुंसक वादरमें	१४	२८	१०१	०
१४४	नोगर्भज सास्वतामें	७	३८	०	९९
१४५	अपर्याप्ता सम्यक्त्वदृष्टीमें	६	१३	४५	८१
१४६	त्रसनोगर्भज एकांत मिथ्यादृष्टीमें	१	८	१०१	३६
१४७	लवणसमुद्रके अभावकमें	०	३५	११२	०
१४८	वैक्रिय शरीर स्त्रीवेदमें	०	५	१५	१२८

जीवकेभेद	स्यानका नाम	नारकी	तिर्यच	मनुष्य	देवता
१४९	सत्री एकांत मिथ्यात्वीमें	१	०	११२	३६
१५०	तीरछालोकके वचनयोगीमें	०	१३	१०१	३६
१५१	तीरछालोकके पचेन्द्री नपुंसकमें	०	२०	१३१	०
१५२	तीरछालोकके पचेन्द्रीसास्वतामें	०	१५	१०१	३६
१५३	एकान्त नपुंसक वेदमें	१४	३८	१०१	०
१५४	तेजोलेशी वचनयोगी सम्यक्त्वदृष्टीमें	०	५	१०१	४८
१५५	तीरछालोकके प्रत्येक शरीर बादर पर्याप्तमें	०	१८	१०१	३६
१५६	तीरछालोकके बादर पर्याप्तमें	०	१९	१०१	३६
१५७	समृच्चय असत्री एकान्त मिथ्यात्वीमें	१	३०	१११	१५
१५८	नोगर्भजबादर एकान्त मिथ्यात्वीमें	१	२०	१०१	३६
१५९	तीरछालोकके प्रत्येक शरीर पर्याप्तमें	०	२२	१०१	३६
१६०	तीरछालोकके कृष्ण लेशी सम्यक्त्व दृष्टीमें	०	१८	९०	४०
१६१	तीरछालोकका पर्याप्त	०	२४	१०१	३६
१६२	सम्यक्त्व दृष्टी देवतामें	०	०	०	१६२
१६३	स्त्री वेद अवधि दर्शनमें	०	५	३०	१२८
१६४	प्रत्येक शरीर नोगर्भज एकांत मिथ्यात्वीमें	१	२६	१०१	३६

जीवकेभेद	स्थानका नाम	नारकी	तिर्यच	मनुष्य	देवता
१६५	समुच्चय पंचेन्द्री नष्टसकर्म	१४	२०	१३१	०
१६६	अभाषक मरणापामें	०	३५	१३१	०
१६७	कृष्णलेशी ग्रणेद्रि वचनयोगी	३	१२	१०१	५१
१६८	कृष्णलेशी वचन योगीमें	३	१३	१०१	५१
१६९	तीरछा लोकके नोगर्भज कृष्ण लेशीत्रसमें	०	१६	१०१	५२
१७०	तेजू लेशीवचनयोगीमें	०	५	१०१	६४
१७१	नो गर्भज कृष्ण लेशी त्रसमरणपामें	३	१६	१०१	५२
१७२	कृष्णलेशी स्त्री वेद सम्यक्तव दृष्टिमें	०	१०	९०	७२
१७३	तेजू लेशी अभाषकमें	०	८	१०१	६४
१७४	नो गर्भज कृष्ण लेशी अपर्याप्तामें	३	१९	१०१	५१
१७५	औदारिक शरीर चारलेशीमें	०	३	१७२	०
१७६	लवण समुद्रके त्रस एकान्त मिथ्यात्वीमें	०	८	१६८	०
१७७	तीरछा लोकके पंचेन्द्रो सम्यक्तव दृष्टीमें	०	१५	९०	७२
१७८	तीरछा लोकके चक्षुइन्द्री सम्यक्तव दृष्टीमें	०	१६	९०	७२
१७९	तीरछा लोककेसमुच्चयनपुंसकर्ममें	०	४८	१३१	०
१८०	तीरछा लोकके सम्यक्तव दृष्टीमें	०	१८	९०	७२

जीववैभेद स्थानका नाम	नारकी	तिर्यच	मनुष्य	देवता
१८१ नो गर्भम चक्षुद्गीसम्यक्त्व	१३	६	०	१६२
१८२ नोगर्भजघ्राणेद्गी सम्यक्त्व	१३	८	०	१६२
दृष्टीमें				
१८३ नोगर्भज सम्यक्त्व दृष्टीमें	१३	७	०	१६२
१८४ वैक्रियके मिश्रयोगी देवतामें	०	०	०	१८४
१८५ कृष्णलेशी सम्यक्त्व दृष्टीमें	५	१८	९०	७२
१८६ नीललेशी सम्यक्त्व दृष्टीमें	६	१८	९०	७२
१८७ अभाषक मनुष्य एक सठाणीमें	०	०	१८७	०
१८८ विभग ज्ञानी देवतामें	०	०	०	१८८
१८९ तीरछालोकके नोगर्भज प्रसमें	०	१६	१०१	७२
१९० लवणसमुद्रके चक्षुद्गीमें	०	२२	१६८	०
१९१ तीरछालोकके कृष्णलेशी- नोगर्भजमें	०	३८	१०१	५२
१९२ लवण समुद्रके घ्राणेद्गीमें	०	२४	१६८	०
१९३ समुच्चयनप्रसकमें	१४	४८	१३१	०
१९४ लवण समुद्रकत्रसमे	०	२६	१६८	०
१९५ वैक्रियशरीर सम्यक्त्व	१३	५	१५	१६२
१९६ तेजोलेशी सम्यक्त्व दृष्टीमें	०	१०	९०	९६
१९७ चक्षुद्गी एक वेदवाग्नेमें	१४	१२	१०१	७०
१९८ एकान्त मिथ्यात्वो अभाषकम	१	२२	१५७	१८
१९९ नोगर्भज वैक्रियमिश्रयोगीमें	१४	१	०	१८४



जीवकेभेद	स्थानका नाम	नारकी	तिर्यच	मनुष्य	देवता
२००	वचनयोगी तीन शरीरमें	७	<	<६	९९
२०१	एक वेदीत्रस कायमें	१४	१६	१०१	७०
२०२	नोगर्भजविभंग ज्ञानीमें	१४	०	०	१८८
२०३	नोगर्भज वैक्रिय मिथ्यात्वीमें	१४	१	०	१८८
२०४	एकान्त मिथ्यात्वी तीन शरीरी मरण पामें	०	२९	१५७	१८
२०५	एकान्त मिथ्यात्वी मरण पामें	०	३०	१५७	१८
२०६	लवण समुद्रके वादरमें	०	३८	१६८	०
२०७	मनयोगी मिथ्यात्वीमें	७	५	१०१	९४
२०८	एकान्त सन्नीसम्यक्त्व दृष्टीका अपर्याप्तामें	१२	५	७५	११६
२०९	समुच्चय संख्यातकालकात्रस मरण पामें	१	२६	१३१	५१
२१०	एकान्तसन्नी मिश्रयोगीमें	१३	५	४५	१४७
२११	तीरछा लोककेनोगर्भजमे	०	३८	१०१	७२
२१२	मनयोगीमे	७	५	१०१	९९
२१३	एकान्त मिथ्यात्वी मनुष्यमें	०	०	२१३	०
२१४	मिथ्यात्वीवैक्रियके मिश्रमें	१४	६	१५	१७९
२१५	औदारिक तेजोलेशीमें	०	१३	२०२	०
२१६	लवणसमुद्रमें	०	४८	१६८	०
२१७	वचनयोगी पंचेन्द्रीमें	७	१०	१०१	९९
२१८	वैक्रिय मिश्रके त्रसकायमें	१४	५	१५	१८४

जीवकेभेद स्थानका नाम	नारकी	तिर्यच	मनुष्य	देवता
२१९ वैक्रिय मिश्रमें	१४	६	१५	१८४
२२० वचनयोगीमें	७	१३	१०१	९९
२२१ अचर्म बादर पर्याप्तामें	७	१९	१०१	९४
२२२ सास्वत् पचेन्द्रीमें	७	१५	१०१	९९
२२३ वैक्रिय मिध्यात्वीमें	१४	६	१५	१८८
२२४ सास्वता चक्षुइन्द्रीमें	७	१७	१०१	९९
२२५ प्रत्येक शरीर बादर पर्याप्तामें	७	१८	१०१	९९
२२६ औदारिक अपर्याप्तामें	०	२४	२०२	०
२२७ नोगर्मज बादर अभापकमें	७	२०	१०१	९९
२२८ सास्वता त्रसमें	७	२१	१०१	९९
२२९ प्रत्येक शरीरी पर्याप्तामें	७	२२	१०१	९९
२३० त्रस औदारिक शरीरी अभापकमें	०	१३	२१७	०
२३१ पर्याप्ता	७	२४	१०१	९९
२३२ पचेन्द्री औदारिक शरीरके मिश्रमें	०	१५	२१७	०
२३३ वैक्रिय शरीरमें	१४	६	१५	१९८
२३४ औदारिक मिश्रयोगी घ्राणेन्द्रीमें	०	१७	२१७	०
२३५ औदारिक मिश्रयोगी त्र०में	०	१८	२१७	०
२३६ मनुष्यकी आगती नोगर्ममें	६	३०	१०१	९९
२३७ औदारिक पचेन्द्री मरणपामें	०	२०	२१७	०
२३८ बादर प्रत्येक शरीरी सास्वतामें	७	३१	१०१	९९

जीवकेभेद	स्थानका नाम	नारकी	तिर्य्यच	मनुष्य	देमता
२३९	सम्यक्त्व दृष्टी मिश्रयोगीमें	१३	१८	६०	१४८
२४०	सास्वताः वादरमें	७	३३	१०१	९९
२४१	प्रत्येक शरीर नोगर्मज मरणपामें	७	३४	१०१	९९
२४२	वादर औदारिक मिश्रयोगीमें	०	२५	२१७	०
२४३	औदारिक शरीरी एकांत मिथ्यात्वोमें	०	३०	२१३	०
२४४	तीन शरीर नोगर्मज मरणपामें	७	३७	१०१	९९
२४५	समुच्चय असत्री त्रसमें	१	२१	१७२	५१
२४६	प्रत्येक शरीरी सास्वतामें	७	३९	१०१	९९
२४७	अवधी दर्शनमें	१४	५	३०	१९८
२४८	तीरछालोकके पंचेन्द्री अप्रार्थासामें	०	१०	२०२	३६
२४९	तीरछालोकके चक्षुःद्वी अप्रार्थासामें	०	११	२०२	३६
२५०	भवसिद्धि सास्वतामें	७	४३	१०१	९९
२५१	तीरछालोकके त्रसअप्रार्थासामें	०	१३	२०२	३६
२५२	औदारिक शरीर अभाषकमें	०	३५	२१७	०
२५३	मिश्रयोगी मरणमें	७	३०	१३१	८५
२५४	मिश्रयोगी स्त्रीवेदीमें	०	१०	११६	१२८
२५५	पंचेन्द्री एकान्त मिथ्यात्वोमें	१	६	२१३	३६
२५६	चक्षुःएन्द्री एकान्त मिथ्यात्वोमें	१	६	२१३	३६
२५७	घ्राणेन्द्री एकान्त मिथ्यात्वोमें	१	७	२१३	३६

जीवकेमेद स्थानका नाम	नारकी	तिर्थच	मनुष्य	देवता
२५८ ब्रह्म एकान्त मिथ्या वीर	१	८	२१८	३६
२५९ धर्मदेवकी आगतका घाणेन्द्रोमें	५	२४	१३१	९९
२६० पचे द्रो तीन शरीरी सम्यक्त्वदृष्टीमें	१३	१०	७५	१६२
२६१ कृष्णलेशी असास्वतामें	६	५	२०१	५१
२६२ पुरुषवेदी सम्यक्त्वदृष्टीमें	०	१०	९०	१६२
२६३ प्रत्येक शरीरी स० असन्नि	१	३९	१७२	५१
२६४ तीरछ लोके कृष्णलेशी स्त्रीवेदीमें	०	१०	२०२	५२
२६५ औदारिक शरीर मरणपामें	०	४८	२१७	०
२६६ पचे द्रो कृष्णलेशी अणहारमें	३	१०	२०२	५१
२६७ चक्षुन्द्रो कृष्णलेशी अणहारामें	३	११	२०२	०१
२६८ ब्रह्म एक दृष्टीमें	१	८	११३	४६
२६९ तीरछा लोकक कृष्ण लेशी ब्रह्म माण पामें	०	२६	२१७	२६
२७० नादर एकान्त मिथ्यात्वीमें	१	२०	२१३	३६
२७१ मनुष्यकी आगतीके मिथ्यात्वीमें	६	४०	१३१	९४
२७२ मनुष्यकी आगतीके प्रत्येक शरीरीमें	६	३६	१३१	९९
२७३ नीललेशी एकान्त मिथ्यात्वीमें	०	३०	२१३	२०

जीवकेभेद	स्थानका नाम	नारकी	तिर्यच	मनुष्य	देवता
२७४	कृष्णलेशी एकांत मिथ्यात्वीमें	१	३०	२१३	३०
२७५	क्रियावादी समोत्तरणमें	१३	१०	९०	१६२
२७६	मनुष्यकी अगतीमें	६	४०	१३१	९९
२७७	चार लेश्यावालेमें	०	३	१७२	१०२
२७८	तीरछा लोकके बाहर अभाषकमें०		२९	२१७	३६
२७९	कृष्ण लेशीमें	३	४८	१८७	९१
२८०	पंचेन्द्री सम्यक्त्व दृष्टीमें	१३	१५	९०	१६२
२८१	चक्षुइन्द्री सम्यक्त्व दृष्टीमें	१३	१६	९०	१६२
२८२	ब्रणेन्द्री सम्यक्त्व दृष्टीमें	१३	१७	९०	१६२
२८३	त्रस सम्यक्त्व दृष्टीमें	१३	१८	९०	१६२
२८४	तीरछालोकके पुरुष वेदीमें	०	१०	२०२	७२
२८५	चक्षुइन्द्री एकसंठाणी औदारिकमें	०	१२	२७३	०
२८६	मिथ्यात्वी एकांतसन्नीमें (घ्राणेन्द्रो एक संठाणी औदारिक)	०	१३	२७३	०
२८७	तीरछ लोकके तेजोलेशीमें	०	१३	२०२	७२
२८८	तीन शरीरी मनुष्यमें	०	०	२८८	०
२८९	त्रस एक संठाणी (औदारिक)में०		१६	२७३	०
२९०	एक दृष्टीमें	१	३०	२१३	४६
२९१	तीरछालोकके कृष्णलेशी मरण पामें	०	४८	२१७	२६

जीवकेमेड स्थानका नाम	नारकी	तिर्यच	मनुष्य	देवता
२९० एक सठाणी जी० अत०				
उ० २ सागर स्थीतिमें	२	३८	१८७	६६
२९३ चक्षुर्द्री कृष्णलेशी				
मरण पामें	३	२२	२१७	५१
२९४ नोगर्भनके आगतीके कृष्णलेशी				
व्रसमें	०	२६	२१७	५१
२९५ घ्राणेंद्रा कृष्णलेशी मरणपामें	३	२४	२१७	५१
२९६ एका त सन्धीमें	१३	५	१३१	१४७
२९७ व्रस कृष्णलेशी धरे	३	२६	२१७	५१
२९८ पचेन्द्री अर्थात् एरुसठाणीमें	७	५	१८७	९९
२९९ चक्षुर्द्री अर्थात् एरुसठाणीमें	७	६	१८७	९९
३०० स्त्री वेद एक सठाणीमें	०	०	१७१	१२८
३०१ एक सठाणी औदारिक चट में	०	२८	२७३	०
३०२ अचर्म घ्राणेन्द्रो एक सठाणी				
मरणपामें	७	१४	१८७	९८
३०३ मनुष्यमें	०	०	३०३	०
३०४ नोगर्भन पचेन्द्री मिश्रयोगीमें	१४	५	१०१	१८४
३०५ सम्य चव दृष्टीके आगतका				
कृष्णलेशी वादरमें	३	३४	२१७	५१
३०६ तीरछा लोकके घ्राणेन्द्री				
मिश्रयोगीमें	०	१७	३१७	७२
३०७ तीरछा लोकके व्रसमिश्रयोगीमें	०	१८	२१७	७२

जीवकेभेद	स्थानका नाम	नारकी	तिर्यच	मनुष्य	देवता
३०८	असास्वता मिथ्यात्वीमें	७	९	२०२	९४
३०९	सम्यक्त्व दृष्टीके आगतीका एक संठाणी त्रसमें	७	१६	१८७	९९
३१०	तीन शरीरी एक संठाणी औ०	०	३७	२७३	०
३११	एक संठाणीमें० औ०	०	३८	२७३	०
३१२	नोगर्मजके आगतका कृष्णलेशी तीन शरीरीमें	०	४३	२१७	५२
३१३	असास्वतीमें	७	९	२०२	९९
३१४	कृष्णलेशी स्त्री वेदमें	०	१०	२०२	१०२
३१५	प्रत्येक शरीरी कृष्णलेशी तीन मरण पामें	३	४४	२१७	५१
३१६	अचर्म त्रस अणहारीमें	७	१३	२०२	९४
३१७	नोगर्मज घ्राणेन्द्री मिथ्यात्वीमें	१४	१४	१०१	१८८
३१८	श्रोतेन्द्रीय अपर्याप्तामें	७	१०	२०२	९९
३१९	कृष्णलेशी मरणपामें	३	४८	२१७	५१
३२०	स्त्री वेद तीन शरीरीमें	०	९	१८७	१२८
३२१	त्रस अपर्याप्तामें	७	१३	२०२	९९
३२२	वादर अणहारी अचर्ममें	७	१९	२०२	९४
३२३	नोगर्मज पंचेन्द्रीमें	१४	१०	१०१	१९८
३२४	तीन शरीरी त्रस मिथ्यात्वी मरणपामें	७	२१	२०२	९४

जीवकेमेड स्थानका नाम	नारकी	तिर्यच	मनुष्य	देवता
३२५ औदारिक चक्षुइन्त्रीमें	०	२२	३०३	०
३२६ एक सडाणी मिथ्यात्वी मरणपामें	७	३८	१८७	९४
३२७ नोगर्भज घ्राणेन्त्रीमें	१४	१४	१०१	१९८
३२८ बादर अमापक अचर्ममें	७	२५	२०२	९४
३२९ औदारिक त्रसमें	०	२६	३०३	०
३३० औदारिक एकात मत्र धारणी अवगाढनामें	०	४२	२८८	०
३३१ नोगर्भज बादर मिथ्यात्वीमें	१४	२८	१०१	१८८
३३२ त्रस मिथ्यात्वी एकात स० कालकी स्थितिमें	७	२४	२०७	९४
३३३ चक्षुइन्त्री एकात मरुयात कालकी स्थितिमें	७	२०	२०७	९९
३३४ तीरजालोक अधोलोकके मीमें	०	१०	२०२	१२२
३३५ घ्राणेन्त्री एकात मरुयान काठकी स्थितिमें	७	२२	२०२	९९
३३६ कारमण त्रसमें	७	१३	२१७	९९
३३७ नोगर्भज प्रत्येक शरीरी अचर्म	१५	३४	१०१	१८८
३३८ अमापक अचर्ममें	७	३६	२०६	९४
३३९ उर्द्धलोक तीरजा लोकमें मरणनामें	०	४८	२१७	७४
३४० नोगर्भज बादर तीन शरीरीमें	१४	२७	१०१	१९८



जीवकेभेद स्थानका नाम	नारकी	तिर्यच	मनुष्य	देवता
३४१ औदारिक वादरमें	०	३८	३०३	०
३४२ घ्राणेन्द्री मिथ्यात्वी मरणपामें	७	२४	२१७	९४
३४३ तेजोलेशीमें	०	१३	२०२	१२८
३४४ त्रस मिथ्यात्वी मरणपामें	७	२६	२१७	९४
३४५ तीन शरीरी मिथ्यात्वी ,,	७	४२	२०२	९४
३४६ प्रत्येक शरीरी जी० अत उ०	१६	सा०	स्थिति	
मरणपामें	५	४४	२१७	८०
३४७ आणाहारीमें	७	२४	२१७	९९
३४८ वादर अमापकमें	७	२५	२१७	९९
३४९ त्रसमरणपामें	७	२६	२१७	९९
३५० नोगर्भज तीन शरीरीमें	१४	३७	१०१	१९८
३५१ औदारिक शरीरीमें	०	४८	३०३	०
३५२ जी० अत० उ० १७				
सा० स्थिति मरण पामें	६	४८	२१७	८१
३५३ नोगर्भजके गती त्रस तीन शरीरीमें	२	२१	२२८	१०२
३५४ एकान्त संख्यातकाल स्थितिके मिथ्यात्वीमें	७	४६	२०७	९४
३५५ तीरछा लोक पंचेन्द्री एक संठाणीमें	०	१०	२७३	७२
३५६ वादर मिथ्यात्वी मरण पामें	७	३८	२१७	९४
३५७ सम्यक्त्वदृष्टीके आगतकी				

जीवकेभेद	स्थानका नाम	नाकी	तिर्यच	मनुष्य	देवता
	वादरमें	७	३४	२१७	९९
३५८	अमापकमें	७	३५	२१७	९९
३५९	घ्राणेद्री एक सडाणी				
	तीरत्रालोकमें	०	१४	२७३	७२
३६०	उर्द्धलोक तीरत्रालोकके पुरुषमें	०	१०	२०२	१४८
३६१	तीरत्रालोकके व्रत एक				
	सडाणीमें	०	१६	२७३	७२
३६२	प्रत्येक शरीरी मिथ्यात्वी				
	मरण पामें	७	४४	२१७	९४
३६३	सम्यक्त्वदृष्टीकी आमतर्म	७	४०	२१७	९९
३६४	नोगर्भनकी गतीका वादर				
	शरीरीमें	२	३२	२२८	१०२
३६५	ज० अत० उ० २९				
	सा० मरण पामें	७	४८	२१७	९३
३६६	मिथ्यन्वी मरण पामें	७	४८	२१७	९४
३६७	प्रत्येक शरीरी मरण पामें	७	४४	२१७	९६
३६८	पुरुष एक सडाणी				
	घाणा भवत्रालेर्म	०	०	१७२	१९६
३६९	अधोलोक तीरत्रालोकके वधु				
	द्वी मिश्रयोगी	१४	१६	२१७	१२२
३७०	कृष्णालेशी स० काइकी				
	स्थिति वात्रामें	३	६८	२१७	१०२

जीवकेभेद	स्थानका नाम	नारकी	तिर्थच	मनुष्य	देवता
३७१	अघोलोक तीरछालोकमें मरण षांमें	७	४८	२१७	९९
३७२	तीरछालोक बादरकृष्ण लेशी तीन शरीरीमें	०	६२	२८८	५२
३७३	तीरछालोकके बादर एक संटाणीमें	०	२८	२७३	७२
३७४	एकान्तभवधारणी अवगाहना वादर कृष्ण लेशी	३	३२	२८८	५१
३७५	तीरछालोकके पंचेन्द्री कृष्ण लेशीमें	०	२०	३०३	५२
३७६	एक संटाणी मिश्रयोगी पंचेन्द्री अनेरीयामें	०	५	१८७	१८४
३७७	तीरछालोकका चक्षु इंद्री कृष्णलेशीमें	०	६२	३०३	५२
३७८	मुजपरकी गर्तीके पंचेन्द्री तीन शरीरीमें	४	१०	२०२	१६२
३७९	तीरछालोकका कृष्णलेशी घ्राणेन्द्रीमें	०	२४	३०३	५२
३८०	पुरुषवेद अर्धम तीन शरीरीमें	०	५	१८७	१८८
३८१	तीरछालोकका असकृष्णलेशीमें	०	२६	३०३	५२

श्री परशुरामजीय शाग मन्दिर, पयपुर  
( २९ )

जीवकेभेद	स्यानका नाम	नारकी	तिर्यच	मनुष्य	देवता
३८२	नीरुडा लोकका कृष्णलेशी				
	तीन शरीरीमें	०	४२	२८८	५२
३८३	तीरछा लोकका एक सडाणीमें	०	३८	२७३	७२
३८४	सत्री एक सडाणीमें	१४	०	१७२	१९८
३८५	नोगर्मनकी गतिक्रा बादरमें	२	३८	२४३	१०२
३८६	भवधारिणी अवगाहना वाले उर्द्धलोक तीर्य लोकके तीर्यचकी अगतीमें	०	४२	२८८	५६
३८७	उर्द्धलोक तिर्यलोकके प्रस मिथ्यात्वी एकान्त भव धारणी अवगाहनामें	०	२१	२८८	७८
३८८	तीर्यचकी गतीके पचेन्द्री मिश्रयोगी तीन शरीरीमें	१४	१०	२०२	१६२
३८९	मुमपरीकी गतीके चक्षुद्रोमें	४	१६	२०७	१६२
३९०	पुरुष वेद तीन शरीरीमें	०	५	१८७	१९८
३९१	पचेन्द्री कृष्णलेशी एक सडाणीमें	६	१०	२७३	१०२
३९२	तिरछालोकके बादर तीन शरीरीमें	०	३२	२८८	७२
३९३	तीरछा लोकके बादर कृष्णलेशीमें	०	३८	३०३	५२
३९४	सत्री अमव्यतीन शरीरीमें	१४	४	१८७	१८८
३९५	तीरछालोकके पचेन्द्रीमें	०	२०	३०३	७२

जीवकेभेद	स्थानका नाम	नारकी	निर्यत्र	मनुष्य	देवता
३९६	उर्ध्व० तीरच्छा० धणेन्द्री	एकांतभवधारणी			
	अवगाहनामें	०	२४	२८८	८४
३९७	तीरछा लोकके चक्षु इन्द्रीमें	०	२२	३०३	७२
३९८	अधोलोक तीर्थलोक इकान्त				
	भवधारिणी अवगाहनामें	७	४२	२८८	६१
३९९	तीरछालोकके घ्राणेन्द्रीमें	०	२४	३०३	७२
४००	अभव्य पुरुषवेदमें	०	१०	२०२	१८८
४०१	तीरछालोकके त्रसमें	०	२६	३०३	७२
४०२	तीरछालोकके तीन शरीरीमें	०	४२	२८८	७२
४०३	तीरछालोकके कृष्ण लेशीमें	०	४८	३०३	५२
४०४	एक संठाणी मिश्रयोगी				
	संख्यात भववालेमें	१४	१०	१८७	१८३
४०५	एक संठाणी मिश्रयोगीमें	१४	१०	१८७	१८४
४०६	ऊपरकी गतीका घ्राणेन्द्री				
	मिश्रयोगीमें	१०	१७	२१७	१६२
४०७	वादर प्रत्येक शरीरी				
	कृष्णलेशी १ संठाणीमें	३	२६	२७३	१०२
४०८	तीरछालोकका एकान्तछद्मस्थमे	०	४८	२८८	७२
४०९	कृष्ण लेशी वादर एक संठाणीमें	६	२८	२७३	१०२
४१०	पुरुषवेदमें	०	१०	२०२	१९८
४११	तीरछालोकके वादर प्रत्येक				
	शरीरीमें	०	३६	३०३	७२

जीवकेभेद	स्थानका नाम	नारकी	निर्येच	मनुष्य	देवता
४१२	स्त्रीवेदकी गतीके सत्री मिष्य त्वीमें	१२	१०	२०२	१८८
४१३	प्रशस्तलेशीमें	०	१३	२०२	१९८
४१४	सत्री मिष्यात्वमीमें	१४	१०	२०२	१८८
४१५	कृष्णलेशी प्रत्येक शरीरी एक म्प्यानीमें	६	३४	२७३	१०२
४१६	अप्रशस्तलेशी त न शरीरी बादर एक सठाणीमें	१४	२७	२७३	१०२
४१७	कृष्णलेशी एक सठाणी स्त्री वेदकी आगतिमें	४	३८	२७३	१०२
४१८	बादर प्रत्येक शरीरी एक सठाणी अवगाहना	७	२९	२७३	११३
४१९	कृष्णलेशी एक सठाणी	६	३८	२७३	१०२
४२०	मिश्रयोगी बादर एकांत असच्छाणीमें	१४	२०	२०२	१८४
४२१	स्त्री वेदकी आगति अनशस्तलेशी एक सठाणी प्रत्येक शरीरीमें	१२	३४	२७३	१०२
४२२	स्त्री वेदकी अगनीके सन्नीमें	१२	१०	२०२	१९८
४२३	मिश्रयोगी प्रत्येक शरीरी एकान्त कृष्णलेश्याणीमें	१४	२३	२०२	१८४
४२४	समुच्चय सन्नीमें	१४	१०	२०२	१९८

जीवकेभेद स्थानका नाम	नारकी	निर्घ्न	मनुष्य	देवता
४२५ मिश्रयोगी एकान्त अपचक्रवाणीमें	१४	२५	२०२	१८४
४२६ कृष्णलेशी तीन शरीरी बादर प्रत्येक शरीरीमें	६	३०	२८८	१०२
४२७ अप्रशस्तलेशी एक संठाणीमें	१४	३८	२७३	१०२
४२८ कृष्णलेशी तीन शरीरी बादरमें	६	३२	२८८	१०२
४२९ कृष्णलेशी बादर एकान्त अपचक्रवाणीमें	६	३३	२८८	१०२
४३० स्त्री वेदकी गतिका त्रस मिश्र- योगी वणा भववालेमें	१२	१८	२१७	१८३
४३१ स्त्री वेदकी गतिका त्रस मिश्रयोगीमें	१२	१८	२१७	१८४
४३२ त्रस मिश्रयोगी संख्यात भववालामें	१४	१८	२१७	१८३
४३३ त्रस मिश्रयोगीमें	१४	८४	२१७	१८४
४३४ कृष्णलेशी प्रत्येक तीन शरीरीमें	६	३८	२८८	१०२
४३५ मिश्रयोगी बादर मिथ्यात्वीमें	१४	२५	२१७	१७९
४३६ तीन शरीरी बादर अप्रशस्त लेशीमें	१४	३२	२८८	१०२

जीवकेभेद	स्थानका नाम	न रकी	निर्येच	मनुष्य	देवता
४३७	अप्रशस्तलेशी मिथ्या- स्वी वादरमें	१४	३३	२८८	१०२
४३८	कृष्णलेशी तीन शरीरीमें	६	८२	२८८	१०२
४३९	कृष्णलेशी एकान्त अपघ्नस्राणीमें	६	४३	२८८	१०२
४४०	मिश्रयोगी वादरमें	१४	२६	२१७	१८४
४४१	अघोलोक तीर्थलोकके चक्षु- इन्द्री तीन शरीरीमें	१४	१७	२८८	१२२
४४२	अप्रशस्तलेशी प्रत्येक तीन शरीरीमें	१४	३८	२८८	१०२
४४३	प्रत्येक शरीरी मिश्रयोगीमें	१४	२८	२१७	१८४
४४४	प्रत्येक शरीरी एकान्त मव धारिणी अवगाहना घणा मववाडामें	७	३८	२८८	१११
४४५	अघोलोक तीर्थलोक तीन शरीरी प्रसमिश्रयोगीमें	१४	२१	२८८	१२२
४४६	अप्रशस्तलेशी तीन शरीरीमें	१४	४२	२८८	१०२
४४७	एकान्त अपघ्नस्राणी अप्र- शस्त लेशीमें	१४	४३	२८८	१०२
४४८	एकान्त मवधारिणी अवगा- हना घणा मववाडामें	७	४२	२८८	१११
४४९	स्वी वेदकी गती एकान्त मव धारिणी अवगाहनामें	६	४२	२८८	११३



जीवकेभेद	स्थानका नाम	नारकी	निर्यच	मनुष्य	देवता
४५०	मत्रसिद्धीया एकांत मत्र धारिणी अवगाहनामें	७	४२	२८८	११३
४५१	उरपरकी गती कृष्णलेशी प्रत्येक तीन शरीरीमें	२	४४	३०३	१०२
४५२	मुजगुरकी गती अधोलोक तीर्थलोक प्रत्येक तीन शरीरीमें	३८	२८८	१२२	
४५३	स्त्री गती कृष्णलेशी प्रत्येक तीन शरीरीमें	४	४४	३०३	१०२
४५४	उर्ध्वलोक तीर्थलोक एकांत छद्मस्त पंचेन्द्री घणा भववालामें	०	२०	२८८	१४६
४५५	कृष्णलेशी प्रत्येक शरीरीमें	६	४४	३०३	१०२
४५६	अधोलोक तीर्थलोक तीन शरीरी बादरमें	१४	३२	२८८	१२२
४५७	अप्रसस्त लेशी बादरमें	१४	३८	३०३	१०२
४५८	उर्ध्वलोक तीर्थलोक एकांत छद्मस्थ चक्षुइंद्रीमें	०	२२	२८८	१४८
४५९	उर्ध्वलोक तीर्थलोकका एक संठाणीमें	०	३८	२७३	१४८
४६०	उर्ध्वलोक तीर्थलोक एकांत छद्मस्थ घ्राणेन्द्रीमें	०	२४	२८८	१४८
४६१	अधोलोक तीर्थलोकका चक्षुइंद्रीमें	१४	२२	३०३	१२२

जीवकमेद स्थानका नाम	नारकी	निर्यच	मनुष्य	देवता
४६० अधोलोक तीर्थलोकके बाहर एकात छत्रस्तमें	१४	३८	२८८	१२२
४६३ अधोलोक तीर्थलोक घ्राणे दामें	१४	२४	३०३	१२२
४६४ श्री वेदकी आगतीके अधोलोक तीर्थलोकके तीन शरीरमें	१२	४२	२८८	१२२
४६५ अधोलोक तीर्थलोकके प्रथममें	१४	२६	३०३	१२२
४६६ अधोलोक तीर्थलोकके तीन शरीरमें	१४	४२	२८८	१२२
४६७ अमशस्त लेशीमें	१२	४८	३०३	१०२
४६८ उर्ध्वलोक तीर्थलोक तीन शरीर बादामें	०	३२	२८८	१४८
४६९ उर्ध्वलोक तीर्थलोक पञ्चान अपघनाणी बादामें	०	३२	२८८	१४८
४७० अधोलोक तीर्थलोक एकात उत्तम्य श्री वेदकी गतिमें	१२	४८	२८८	१२२
४७१ उर्ध्वलोक तीर्थलोकका पंचेद्रीमें	०	२०	३०३	१४८
४७२ अधोलोक तीर्थलोक पञ्चान तद्वनमें	१४	४८	२८८	१२२
४७३ अधोलोक तीर्थलोक पञ्चद्रीमें	०	२२	३०३	१४८

जीवकेभेद	स्यानका नाम	नारकी	तिर्यच	मनुष्य	देवता
४७४	उर्ध्वलोक तीर्यलोकके एकांत छद्मस्त बादरमें	०	३८	२८८	१४८
४७५	उर्ध्वलोक तीर्यलोक घ्राणेन्द्रीमें	०	२४	३०३	१४८
४७६	उर्ध्वलोक तीर्यलोक तीन शरीरी घणा भव वालामें	०	४२	२८८	१४६
४७७	उर्ध्वलोक तीर्यलोकके त्रसमें	०	२६	३०३	१४८
४७८	उर्ध्वलोक तीर्यलोक तीन शरीरीमें	०	४२	२८८	१४८
४७९	उर्ध्वलोक तीर्यलोकके एकांत अपचक्रणोंमें	०	४३	२८८	१४८
४८०	उर्ध्वलोक तीर्यलोक एकान्त छद्मस्त प्रत्येक शरीरीमें	०	४४	२८०	१४८
४८१	स्त्री वेदकी गतीका अधोलोक तीर्यलोक शरीरीमें	१२	४४	३०३	११२
४८२	उर्ध्वलोक तीर्यलोक एकतां छद्मस्त घणा भववालामें	०	४८	२८८	१४६
४८३	अधोलोक तीर्यलोक प्रत्येक शरीरीमें	१४	४४	३०३	१२२
४८४	उर्ध्वलोक तीर्यलोक एकान्त छद्मस्तमें	०	४८	२८८	१४८

जीवकेभेद	स्थानका नाम	नारकी	निर्यच	मनुष्य	देवता
४८४	स्त्री वेदकी गतीका अधो लोक तीर्यलोकमें	१२	४८	३०३	१२२
४८६	मुनप्राकी गतीके तीन शरीरी वादरमें	४	३२	२८८	१६२
४८७	अधोलोक तीर्यलोकमें	१४	४८	३०३	१२२
४८८	खेचरकी गतीके तीन शरीरी वादरमें	६	३२	२८८	१६२
४८९	उर्द्धलोक तीर्यलोक वादरमें	०	३८	३०३	१४८
४९०	चौपदकी गतीके तीन शरीरी वादरमें	८	३२	२८८	१६२
४९१	खेचरकी गतीके पचेन्द्रोमें	६	२०	२०३	१६२
४९२	डाप्राकी गतीके तीन शरीरी वादरमें	१०	३०	२८८	१६२
४९३	उर्द्धलोक तीर्यलोक प्रत्येक शरीरी घणा मववालामे	०	४४	३०३	१४६
४९४	खेचरकी गतीके प्रत्येक तीन शरीरीमें	६	३८	२८८	१६२
४९५	उर्द्धलोक तीर्यलोकके प्रत्येक शरीरीमें	०	४४	३०३	१४८
४९६	मुनप्राकी गतीके तीन शरीरीमें	४	४२	२८८	१६२
४९७	खेचरकी गतीके प्रत्येक	६	२६	३०३	१६२

जीवके भेद	स्थानका नाम	नारकी	तिर्यच	मनुष्य	देवता
४९८	खेचरकी गतीका तीन शरीरमें	६	४२	२८८	१६२
४९९	उर्द्धलोक तीर्थलोकमें	०	४८	३०३	१४८
५००	चौपदकी गतीके तीन शरीरमें	८	४२	१८८	१६२
५०१	त्रस एक संठाणमें	१४	१६	२७३	१९८
५०२	उरपरकी गतीके तीन शरीरमें	१०	४२	२८८	१६२
५०३	तीर्यचकी गतीके घ्राणन्द्रीमें	१४	२४	३०३	१६२
५०४	खेचरकी गतीके एक संठाणीमें	६	४८	२८८	१६२
५०५	तीर्यचकी गतीके त्रसमें	१४	२६	३०३	१६२
५०६	सत्री तीर्यचकी गतीके तीन शरीरमें	१४	४२	२८८	१६२
५०७	अन्तर द्रोप पर्दास का अलङ्घीयामें	१४	४८	२४७	१९८
५०८	उजपरकी गतीके एकांत स कषाईमें	१०	४८	२८८	१६२
५०९	चौपदकी गतीके बादर प्रत्येक शरीरमें	८	३६	३०३	१६२
५१०	तीर्यचणीकी गतीके एकांत सयोगीमें	१२	४८	२८८	१६२
५११	एक संठाणी प्रत्येक शरीरमें	१४	२६	२७३	१९८

जीवकेभेद	स्थानका नाम	नारकी	निर्यव	मनुष्य	देवता
५१२	तीर्यवकी गतीमें एकांत सयोगीमें	१४	४८	१८८	१९२
५१३	एकसत्रणी मिष्टात्वीमें	१४	३८	२७३	१८८
५१४	मव्यमजीवके भेद स्फुर्मनवाले एरात छद्मस्त चक्षुस्त्रिमें	१४	२२	२८८	१९०
५१५	तीर्यवणकी गतीके बादमें	१२	३८	३०३	१६२
५१६	मव्यम जीवके भेदस्फुर्मने वाले एकांत छद्मस्तघ्राणे न्त्रीमें	१४	२४	२८८	१९०
५१७	स्त्रीपदकी गतीक एकसत्राणी प्रत्येक शरीरीमें	१२	३४	२७३	१९८
५१८	पंचेद्री एकातछद्मस्तघ्राणा भरवाडामें	१४	२०	२८८	१९६
५१९	घ्राणे-द्री एकात अश्वत्थ्याणीमें	१४	१९	२८८	१९८
५२०	पौद्रीएकात सफ्पाइमें	१४	२०	२८८	१९८
५२१	एकसत्राणी घनामभराडामें	१४	३८	२७३	१९६
५२२	एकान सफ्पाई श्चक्षुस्त्रिमें	१४	२२	२८८	१९८
५२३	एकसत्राणीमें	१४	३८	२७३	१९८
५२४	एकात सफ्पाई घ्राणे-द्रीमें	१४	२३	२८८	१९८
५२५	पौ द्री मिश्यात्वीम	१४	२०	३०३	१८८
५२६	एकातसफ्पाई घ्रामें	१४	२६	२८८	१९८

जीवकेभेद स्थानका नाम	नारकी	तिर्यच	मनुष्य	देवता
५२७ तीर्यचकी गतीमें	१४	४८	३०३	१६२
५२८ एकांत छद्मस्त वादर मिथ्यात्वीमें	१४	३८	२८८	१८८
५२९ स्त्रीवेदकी गतीकेत्रस मिथ्यात्वीमें (घ्राणेन्द्रीमें)	१२	२६	३०३	१८८
५३० तीन शरीरी वादरगणा भववालामें	१४	३२	२८८	१९६
५३१ स्त्रीवेदकी गतीके पंचेन्द्री संख्यात भववालामें	१२	२०	३०३	१९६
५३२ तीन शरीरी वादरमें	१४	३२	२८८	१९८
५३३ एकांत अपञ्चव्याणीवादरमें	१४	३३	२८८	१९८
५३४ एकांत छद्मस्त अभन्ध प्रत्येक शरीरी	१४	४४	२८८	१८८
५३५ पंचेन्द्रीमें	१४	२०	३०३	१९८
५३६ स्त्रीवेदकी गतीके एवांत सकषाई वादरमें	१२	३८	२८८	१९८
५३७ स्त्रीवेदकी गतीके घ्राणेन्द्रीमें	१२	२४	३०३	१९८
५३८ एकांत छद्मस्त वादरमें	१४	३८	२८८	१९८
५३९ घ्राणेन्द्रीमें	१४	२४	३०३	१९८
५४० स्त्रीवेद की गतीके तीन शरीरीमें	१२	४२	२८८	१९८
५४१ त्रसकायमें	१५	२६	३०३	१९८
५४२ तीन शरीरी एवांत छद्मस्तमें	१४	४२	२८८	१९८

जीवकेमेड स्यानका नाम	नारकी	तिर्यक्	मनुष्य	देवता
५४३ एकात अपञ्चव्याणीमें	१४	४३	२८८	१९८
५४४ एका त छद्मस्त प्रत्येक शरीरीमें	१४	४४	२८८	१९८
५४५ सम्य० तीर्यक्का अलक्षियामें	१४	३०	३०३	१९८
५४६ एकान्त छद्मस्त घणा भववालामें	१४	४८	२८८	१९६
५४७ स्त्री वेदकी गतीके मिथ्यात्वी प्रत्येक शरीरीक	१२	४४	३०३	१८८
५४८ एकान्त छद्मस्तमें	१४	४८	२८८	१९८
५४९ मिथ्यात्वी प्रत्येकशरीरीमें	१०	४४	३०३	१८८
५५० सम्यक्त्र्य दृष्टी नारकीका अलक्षिय में	१	४८	३०३	१९८
५५१ स्त्रीवेदकी गतीक मिथ्यात्वीमें	१२	४८	३०३	१८८
५५२ एकेन्द्री पर्याप्ताका अलक्षियामें	१४	३७	३०३	१९८
५५३ मिथ्यात्वीमें	१४	४८	३०३	१८८
५५४ त्रैविक अपर्याप्ताका अलक्षियामें	१४	४८	३०३	१८९
५५५ मयम जीवक भेदकी फारसनावला	१४	४८	३०३	१९०



जीवकेभेद	स्थानका नाम	नारकी	निर्यच	मनुष्य	देवता
५५६	नारकी अपर्याप्ताका अलद्धियामें	७	४८	३०३	१९८
५५७	स्त्री वेदकी गतीका प्रत्येक शरीरीमें	१२	४४	३०३	१९८
५५८	तीर्यच पंचेन्द्री वैक्रिय शरीरके अलद्धियामें	१४	४३	३०३	१९८
५५९	प्रत्येक शरीरीमें	१४	४४	३०३	१९८
५६०	एकेन्द्री तेजूलेशीके अलद्धियामें	१४	४५	३०३	१९८
५६१	स्त्री वेदकी गतीमें	१२	४८	३०३	१९८
५६२	एकेन्द्री वैक्रिय शरीरके अलद्धियामें	१४	४७	३०३	१९८
५५३	समुच्चय जं वमें	१४	४८	३०३	१९९

इति.

सेवंभंते सेवंभंते

तमे वसन्तम्

